



प्रेस नोट थाना गजरौला

दिनांक-22.10.2021

श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी:-

थाना गजरौला पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोटर साईकिल, मोबाईल फोन व अवैध असलहे सहित शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना गजरौला पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 की समय करीब 09.30 बजे शातिर वाहन चोर 1.साजिद पुत्र समशेर निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा 2. हसरत पुत्र मुख्तयार नि0 ग्राम मौहम्मदाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा को रजबपुर की ओर से आते वक्त टूटी पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की दो मोटर साईकिल, एक मोबाईल फोन, एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस एवं एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किये गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त साजिद के विरुद्ध थाना गजरौला पर मु0अ0स0 641/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 व अभियुक्त हसरत के विरुद्ध थाना गजरौला पर मु0अ0स0 642/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं जो आर्थिक लाभ हेतु चोरी करते हैं व चोरी किये हुए सामान को बेच देते हैं । अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि अपाचे मोटर साइकिल पर फर्जी नं0 प्लेट लगाकर चोरी करने के लिए प्रयोग करते हैं । अभियुक्तगण द्वारा स्पलेण्डर टीवीएस स्पोर्टस UP23 S 93945(फर्जी नम्बर प्लेट लगी) को सब्जी मण्डी गजरौला से 06 दिन पूर्व व मोबाईल फोन ओपो A-52 को 02 दिन पूर्व हसनपुर रोड पर खडे एक व्यक्ति की बैग की चैन खोलकर चोरी करना बताया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साजिद पुत्र समशेर निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. हसरत पुत्र मुख्तयार नि0 ग्राम मौहम्मदाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. मोटर साइकिल अपाचे प्रो रंग सफेद रजि० नं० DL 8 SAP 8152 ।
2. मोटर साइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स रंग लाल काला चेसिस नं० MD625MF53G3F08147 इंजन नं० CF5EG1262773 रजि० नं० UP 23 S 9395 ।
3. मोबाइल फोन ओपो A-52 रंग ग्रे IMEI NO. 862719040181531 व 862719040181523
4. एक तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
5. एक नाजायज चाकू ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त साजिद:-

1. मु०अ०सं० 638/21 धारा 379,411,420 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 631/21 धारा 379,411,420 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 641/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त हसरत:-

1. मु०अ०सं० 638/21 धारा 379,411,420 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 631/21 धारा 379,411,420 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 642/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि० थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ०नि० राजेन्द्र सिंह पुण्डीर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. का० 114 लोकेश कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
4. का० 167 महेश कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. का० 159 विपीन कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

